

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 538]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2019—पौष 7, शक 1941

विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश

भोपाल, शनिवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2019—पौष 7, शक 1941

विधान सभा सदस्य के निधन की सूचना

क्र. 21209—वि.स.—विधान—2019.— मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 04 — जौरा जिला— मुरैना से निर्वाचित सदस्य, श्री बनवारी लाल शर्मा का दिनांक 21 दिसम्बर, 2019 को निधन हो जाने के फलस्वरूप विधान सभा में उक्त एक स्थान रिक्त हो गया है.

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.